

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड							
रजि. कार्यालय: ऊर्जा निधि, 1, बाराखंभा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली वेबसाइट: https://www.pfcindia.com							
दिनांक 30.09.2025 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए अनेकक्षित एकल वित्तीय परिणाम का विवरण							
क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
		30.09.2025 (अनेकक्षित)	30.06.2025 (अनेकक्षित)	30.09.2024 (अनेकक्षित)	30.09.2025 (अनेकक्षित)	30.09.2024 (अनेकक्षित)	31.03.2025 (अनेकक्षित)
	परिचालनों से राजस्व						
(i)	ब्याज आय	13,472.78	13,738.89	11,908.98	27,211.67	23,736.01	49,874.70
(ii)	लाभार्थ आय	1,102.44	6.00	1,248.09	1,108.44	1,248.10	2,992.30
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	180.28	28.53	49.50	208.81	132.56	232.22
I.	परिचालनों से कुल राजस्व	14,755.50	13,773.42	13,206.57	28,528.92	25,116.67	53,099.22
II.	अन्य आय	0.76	3.36	8.74	4.12	14.88	28.54
III.	कुल आय (I+II)	14,756.26	13,776.78	13,215.31	28,533.04	25,131.55	53,127.76
	व्यय						
(i)	वित्तीय लागतें	8,183.49	8,269.73	7,502.15	16,453.22	15,002.62	30,538.04
(ii)	निवल अंतरण/ट्रिजेक्शन विनिमय हानि/(लाभ)	497.18	654.64	309.96	1,151.82	251.09	466.76
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	9.02	9.44	4.99	18.46	10.38	28.66
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(लाभ)	100.56	(163.75)	(159.20)	(63.19)	(386.01)	(256.55)
(v)	वित्तीय लिखत पर क्षतिग्रस्तता	241.99	(681.82)	(124.10)	(439.83)	(62.08)	457.11
(vi)	कार्मिक हितलाभ व्यय	71.07	70.73	57.52	141.80	118.97	268.58
(vii)	मूल्यहास, परिशोधन एवं क्षतिग्रस्तता	5.81	4.82	4.29	10.63	7.97	19.83
(viii)	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	76.36	75.80	127.38	152.16	128.90	270.28
(ix)	अन्य व्यय	30.89	24.03	39.83	54.92	67.95	162.68
IV.	कुल व्यय	9,216.37	8,263.62	7,762.82	17,479.99	15,139.79	31,955.39
V.	असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)	5,539.89	5,513.16	5,452.49	11,053.05	9,991.76	21,172.37
VI.	असाधारण मदें	-	-	-	-	-	-
VII.	कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)	5,539.89	5,513.16	5,452.49	11,053.05	9,991.76	21,172.37
	कर व्यय:						
(i)	वर्तमान कर:						
	- वर्तमान वर्ष	1,106.35	1,045.57	883.34	2,151.92	1,674.15	3,585.36
	- पूर्ववर्ती वर्ष	-	-	-	-	-	(15.31)
(ii)	आस्थगित कर व्यय / (आय)	(28.40)	(33.91)	198.71	(62.31)	229.29	250.13
VIII.	कुल कर व्यय	1,077.95	1,011.66	1,082.05	2,089.61	1,903.44	3,820.18
IX.	जारी परिचालनों से अर्वाधिक के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)	4,461.94	4,501.50	4,370.44	8,963.44	8,088.32	17,352.19
X.	बंद परिचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)	-	-	-	-	-	-
XI.	अर्वाधिक के लिए लाभ/(हानि) (जारी एवं बंद परिचालनों से) (IX+X)	4,461.94	4,501.50	4,370.44	8,963.44	8,088.32	17,352.19
	अन्य व्यापक आय						
(क)	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा						
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	(1.55)	(1.54)	(1.43)	(3.09)	(2.86)	(6.17)
	- इकिटी लिखत के उचित मूल्य पर निवल लाभ/(हानि)	(196.22)	182.44	330.74	(13.78)	678.24	(2.90)
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा						
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	0.37	0.37	0.37	0.74	0.73	1.45
	- इकिटी इंस्ट्रूमेंट्स के उचित मूल्य पर शुद्ध लाभ / (हानि)	44.67	(41.91)	(105.63)	2.76	(161.86)	(52.23)
	उप कुल (क)	(152.73)	139.36	224.05	(13.37)	514.25	(59.85)
(ख)	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा						
	- नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखतों पर लाभ और (हानि) का लागू भाग	379.57	(183.77)	(284.83)	195.80	(266.62)	(197.26)
	- हेजिंग लागत आरक्षित	(211.75)	(549.08)	215.17	(760.83)	234.58	(124.79)
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा						
	- कैश फ्लो हेज में लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा	(95.53)	46.25	71.68	(49.28)	67.10	49.65
	- हेजिंग लागत आरक्षित	53.30	138.19	(54.15)	191.49	(59.04)	31.41
	उप कुल (ख)	125.59	(548.41)	(52.13)	(422.82)	(23.98)	(240.99)
XII.	अन्य व्यापक आय (क+ख)	(27.14)	(409.05)	171.92	(436.19)	490.27	(300.84)
XIII.	अर्वाधिक के लिए कुल व्यापक आय (XI+XII)	4,434.80	4,092.45	4,542.36	8,527.25	8,578.59	17,051.35
XIV.	प्रदत्त इकिटी शेर पूंजी (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए)	3,300.10	3,300.10	3,300.10	3,300.10	3,300.10	3,300.10
XV.	अन्य इकिटी (31 मार्च के अनेकक्षित तुलन-पत्र के अनुसार)	लागू नहीं	87,636.77				
XVI.	मूल एवं तनुकृत प्रति इकिटी शेर अर्जन (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए)*:						
	(1) जारी परिचालनों के लिए (₹ में)	13.52	13.64	13.24	27.16	24.51	52.58
	(2) बंद परिचालनों के लिए (₹ में)	-	-	-	-	-	-
	(3) जारी एवं बंद परिचालनों के लिए (₹ में)	13.52	13.6	13.2	27.1	24.5	52.5
			4	4	6	1	8

* तिमाही और छमाही के लिए ईपीएस वार्षिकीकृत नहीं है। अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों से संबंधित नोट्स देखें।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड							
रजि. कार्यालय: ऊर्जा निधि, 1, बाराखम्भा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली वेबसाइट: https://www.pfcindia.com							
दिनांक 30.09.2025 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए अनंकेक्षित एकल वित्तीय परिणाम का विवरण							
(करोड़ रु. में)							
क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
		30.09.2025 (अनंकेक्षित)	30.06.2025 (अनंकेक्षित)	30.09.2024 (अनंकेक्षित)	30.09.2025 (अनंकेक्षित)	30.09.2024 (अनंकेक्षित)	31.03.2025 (अंकेक्षित)
	परिचालनों से राजस्व						
(i)	ब्याज आय	28,069.47	28,257.53	25,398.22	56,327.00	49,924.59	105,001.01
(ii)	लाभांश आय	28.68	6.00	22.48	34.68	22.49	90.51
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	654.03	172.72	97.76	826.75	227.73	625.96
(iv)	अन्य परिचालन आय	138.06	102.79	203.33	240.85	263.74	784.14
I.	कुल परिचालनों से राजस्व	28,890.24	28,539.04	25,721.79	57,429.28	50,438.55	106,501.62
II.	अन्य आय	10.98	89.88	32.94	100.86	52.86	97.08
III.	कुल आय (I+II)	28,901.22	28,628.92	25,754.73	57,530.14	50,491.41	106,598.70
	व्यय						
(i)	वित्तीय लागतें	17,314.23	17,203.98	16,007.88	34,518.21	31,528.74	64,669.98
(ii)	निवल अंतरण/ट्रांजेक्शन विनिमय हानि/(लाभ)	576.72	706.15	350.72	1,282.87	352.80	674.83
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	9.54	18.19	9.35	27.73	17.34	34.33
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(लाभ)	159.21	412.75	(156.28)	571.96	(669.14)	(604.78)
(v)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(लाभ)	381.69	(1,291.61)	(262.34)	(909.92)	266.44	1,478.70
(vi)	वित्तीय लिखत पर क्षतिग्रस्तता	61.36	55.00	42.20	116.36	74.47	170.84
(vii)	प्रदत्त सेवाओं की लागत	142.24	139.01	127.18	281.25	254.89	553.17
(viii)	कार्मिक हितलाभ व्यय	15.32	14.25	13.04	29.57	25.35	55.68
(ix)	मूल्यहास, परिशोधन एवं क्षतिग्रस्तता	95.32	109.58	159.97	204.90	212.79	564.18
(x)	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	88.23	62.63	95.15	150.86	166.20	369.36
	अन्य व्यय						
IV.	कुल व्यय	18,843.86	17,429.93	16,386.87	36,273.79	32,229.88	67,966.29
V.	संयुक्त उद्यम एवं एसोसिएट्स में लाभ/(हानि) का हिस्सा	-	-	-	-	-	(0.25)
VI.	असाधारण मदों और करपूर्व लाभ/(हानि) (III- IV+V)	10,057.36	11,198.99	9,367.86	21,256.35	18,261.53	38,632.16
VII.	असाधारण मदें	-	-	-	-	-	-
VIII.	कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)	10,057.36	11,198.99	9,367.86	21,256.35	18,261.53	38,632.16
	कर व्यय:						
	- (i) वर्तमान कर						
	- वर्तमान वर्ष	2,281.62	2,092.23	1,953.38	4,373.85	3,700.99	7,748.48
	- पूर्ववर्ती वर्ष	-	-	-	-	-	(15.56)
	(ii) आस्थगित कर व्यय / (आय)	(58.65)	125.31	199.58	66.66	163.58	384.84
IX.	कुल कर व्यय	2,222.97	2,217.54	2,152.96	4,440.51	3,864.57	8,117.76
X.	जारी परिचालनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)	7,834.39	8,981.45	7,214.90	16,815.84	14,396.96	30,514.40
XI.	बंद परिचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)	-	-	-	-	-	-
XII.	अवधि के लिए लाभ/(हानि) (जारी एवं बंद परिचालनों से) (IX+X)	7,834.39	8,981.45	7,214.90	16,815.84	14,396.96	30,514.40
(क)	अन्य व्यापक आय						
(i)	मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा						
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	5.19	0.68	0.79	5.87	(1.03)	(5.41)
	- इकिटी लिखत के उचित मूल्य पर निवल लाभ/(हानि)	(132.21)	186.94	327.43	54.73	702.97	(26.76)
(ii)	मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा	(1.33)	(0.19)	(0.19)	(1.52)	0.27	1.26
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	41.24	(41.91)	(105.36)	(0.67)	(162.44)	(52.23)
	- इकिटी लिखत के उचित मूल्य पर निवल लाभ/(हानि)						
	उप कुल (क)	(87.11)	145.52	222.67	58.41	539.77	(83.14)
(ख)	वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा						
	-कैश फ्लो हेज में लाभ / (हानि) का प्रभावी हिस्सा	133.43	(3,833.88)	(1,776.64)	(3,700.45)	1,011.71	1,026.25
	-हेजिंग लागत आरक्षित	840.04	(200.12)	35.88	639.92	(2,640.46)	(3,344.14)
	-विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर	4.06	(0.05)	0.41	4.01	0.59	2.77
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	(33.58)	964.91	447.14	931.33	(254.63)	(258.28)

	नकदी प्रवाह हेज में लाभ और (हानि) का प्रभावी हिस्सा	(211.41)	50.36	(9.03)	(161.05)	664.55	841.66
	-हेजिंग लागत आरक्षित	(1.02)	0.01	(0.15)	(1.01)	(0.15)	(0.70)
	विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनिमय अंतर						
	उप कुल (ख)	731.52	(3,018.77)	(1,302.39)	(2,287.25)	(1,218.39)	(1,732.44)
XIII.	अन्य व्यापक आय (क+ख)	644.41	(2,873.25)	(1,079.72)	(2,228.84)	(678.62)	(1,815.58)
XIV.	अर्वाध के लिए कुल व्यापक आय (XI+XII)	8,478.80	6,108.20	6,135.18	14,587.00	13,718.34	28,698.82

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ माह		समाप्त वर्ष
		30.09.2025 (अनकोक्षित)	30.06.2025 (अनकोक्षित)	30.09.2024 (अनकोक्षित)	30.09.2025 (अनकोक्षित)	30.09.2024 (अनकोक्षित)	31.03.2025 (अकोक्षित)
	लाभ का कारण:						
	-कंपनी के मालिक	5,743.25	6,866.26	5,302.43	12,609.51	10,845.57	22,990.81
	- गैर-नियंत्रण हित	2,091.14	2,115.19	1,912.47	4,206.33	3,551.39	7,523.59
		7,834.39	8,981.45	7,214.90	16,815.84	14,396.96	30,514.40
	अन्य व्यापक आय के कारण:						
	- कंपनी के मालिक	327.77	(1,706.10)	(486.76)	(1,378.33)	(124.77)	(1,097.15)
	- गैर-नियंत्रण हित	316.64	(1,167.15)	(592.96)	(850.51)	(553.85)	(718.43)
		644.41	(2,873.25)	(1,079.72)	(2,228.84)	(678.62)	(1,815.58)
	कुल समग्र आय के कारण:						
	-कंपनी के मालिक	6,071.02	5,160.16	4,815.67	11,231.18	10,720.80	21,893.66
	- गैर-नियंत्रण हित	2,407.78	948.04	1,319.51	3,355.82	2,997.54	6,805.16
		8,478.80	6,108.20	6,135.18	14,587.00	13,718.34	28,698.82
XV.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए)	3,300.10	3,300.10	3,300.10	3,300.10	3,300.10	3,300.10
XVI.	अन्य इक्विटी (31 मार्च के अंकेक्षित तुलन-पत्र के अनुसार)	लागू नहीं	114,438.25				
XVII.	मूल एवं तनुकृत प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए)*:						
	(1) जारी परिचालनों के लिए (₹ में)	17.40	20.81	16.07	38.21	32.86	69.67
	(2) बंद परिचालनों के लिए (₹ में)	-	-	-	-	-	-
	(3) जारी एवं बंद परिचालनों के लिए (₹ में)	17.4	20.8	16.0	38.2	32.8	69.6
		0	1	7	1	6	7

* तिमाही और छमाही के लिए ईपीएस वार्षिकीकृत नहीं है।
अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों से संबंधित नोट्स देखें।

स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों के लिए नोट्स:

1. परिसंपत्तियों और देनदारियों का स्टैंडअलोन विवरण (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	30.09.2025 तक	31.03.2025 तक
		(अनकेक्षित)	(अकेक्षित)
	परिसंपत्तियाँ		
1	वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
(क)	नकदी और नकदी समकक्ष	132.47	22.03
(ख)	नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	3,960.79	6,820.63
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण	9,123.43	6,647.30
(घ)	व्यापार प्राप्य	-	-
(ङ.)	ऋण	551,546.21	532,818.27
(च)	निवेश	20,711.66	20,719.99
(छ)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5,363.68	5,951.72
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ (1)	590,838.24	572,979.94
2	गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
(क)	चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	211.79	228.24
(ख)	आस्थगितकरपरिसंपत्तियाँ(निवल) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3,558.93	3,351.04
(ग)	विकाससाधन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	50.60	46.68
(घ)	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	15.73	11.98
(ङ.)	उपयोग का अधिकार	4.69	5.23
(च)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	33.27	33.50
(छ)		1,715.59	1,520.72
	कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ (2)	5,590.60	5,197.39
	कुल परिसंपत्तियाँ (1+2)	596,428.84	578,177.33
	देयताएँ और इक्विटी		
	देयताएँ		
1	वित्तीय देयताएँ		
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण	1,334.42	773.17
(ख)	व्यापार देयताएँ		
	(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कुल बकाया	0.03	0.10
	(ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	5.19	9.46
(ग)	ऋण प्रतिभूतियाँ	319,006.54	319,747.77
(घ)	उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	161,538.11	152,203.32
(ङ.)	अधीनस्थ देयताएँ	4,236.47	3,564.35
(च)	अन्य वित्तीय देयताएँ	11,155.35	9,682.28
	कुल वित्तीय देयताएँ (1)	497,276.11	485,980.45
2	गैर-वित्तीय देयताएँ		
(क)	वर्तमान कर देयताएँ (निवल)	379.25	50.92
(ख)	प्रावधान	385.27	476.38
(ग)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएँ	863.29	732.71
	कुल गैर-वित्तीय देयताएँ (2)	1,627.81	1,260.01
	कुल देयताएँ (1+2)	498,903.92	487,240.46
3	इक्विटी		
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	3,300.10	3,300.10
(ख)	अन्य इक्विटी	94,224.82	87,636.77
	कुल इक्विटी (3)	97,524.92	90,936.87

	कुल देयताएं और इक्विटी (1+2+3)	596,428.84	578,177.33

समेकित वित्तीय परिणामों के लिए नोट्स:

1. परिसंपत्तियों और देनदारियों का समेकित विवरण

(₹ in crore)

क्र. सं.	विवरण	30.09.2025 तक	31.03.2025 तक
		(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1	परिसंपत्तियाँ		
	वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
(क)	नकदी और नकदी समकक्ष	5,261.87	319.22
(ख)	नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	5,067.21	9,265.73
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण	31,047.87	24,079.48
(घ)	प्राप्य		
	- व्यापार प्राप्य	293.09	274.06
	- अन्य प्राप्य	7.89	1.99
(ड.)	ऋण	1,126,319.06	1,091,898.40
(च)	निवेश (इंकिटी पद्धति का उपयोग करके हिसाब में लिए गए के अलावा) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	14,282.85	12,792.38
(छ)		30,119.76	30,064.25
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ (1)	1,212,399.60	1,168,695.51
2	गैर- वित्तीय परिसंपत्तियाँ वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ		
(क)	(निवल) आस्थगितकरपरिसंपत्तियाँ(निवल)	529.51	642.38
(ख)	निवेश संपत्ति	6,921.02	6,217.46
(ग)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	0.99	1.01
(घ)	पूंजीगत कार्य प्रगति	705.23	715.46
(ड.)	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	105.10	76.21
(च)	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	15.73	11.98
(छ)	परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	6.48	7.07
(ज)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	35.74	37.17
(झ)	इंकिटी पद्धति का उपयोग करके निवेश का हिसाब लगाया गया	1,878.63	1,663.72
(ञ)		0.08	0.10
	कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ (2)	10,198.51	9,372.56
3	विक्रय हेतु रखी गई वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	30.72	18.43
	कुल परिसंपत्तियाँ (1+2+3)	1,222,628.83	1,178,086.50
1	देयताएं और इंकिटी		
	देयताएं		
(क)	वित्तीय देयताएं		
(ख)	व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण	5,398.70	2,443.23
	देयताएं		
	व्यापार देयताएं		
(i)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कुल बकाया	0.15	0.80
(ii)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	193.02	151.35
	अन्य देय राशि		
(i)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कुल बकाया	2.65	6.52
(ii)	(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया) Debt Securities	8.43	17.28
(ग)	उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	636,027.69	612,176.04
(घ)	अधीनस्थ देयताएं	351,170.11	346,503.48
(ड.)	अन्य वित्तीय देयताएं	13,763.40	13,078.51
(च)	अन्य वित्तीय देयताएं	46,986.28	46,869.09

क्र. सं.	विवरण	30.09.2025 तक	31.03.2025 तक
		(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
	कुल वित्तीय देयताएँ (1)	1,053,550.43	1,021,246.30
2	गैर-वित्तीय देयताएँ		
(क)	वर्तमान कर देयताएँ (निवल) प्रावधान	544.60	51.17
(ख)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएँ	540.22	613.90
(ग)		1,172.97	1,019.90
	कुल गैर-वित्तीय देयताएँ (2)	2,257.79	1,684.97

क्र. सं.	विवरण	30.09.2025 तक	31.03.2025 तक
		(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
3	बिक्री के लिए रखी गई वर्गीकृत परिसंपत्तियों से सीधे जुड़ी देनदारियां	-	-
	कुल देयताएं (1+2+3)	1,055,808.22	1,022,931.27
4	इक्विटी		
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	3,300.10	3,300.10
(ख)	अन्य इक्विटी	123,685.79	114,438.25
	कंपनी के मालिकों को देय इक्विटी (क+ख)	126,985.89	117,738.35
(ग)	गैर-नियंत्रित ब्याज	39,834.72	37,416.88
	ऑय इक्विटी (4)	166,820.61	155,155.23
	कुल देयताएं और इक्विटी (1+2+3+4)	1,222,628.83	1,178,086.50

30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए, संशोधित रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 52(7) और 52(7ए) के अनुपालन में प्रकटीकरण।
A. इश्यू से मिली रकम के इस्तेमाल का स्टेटमेंट:

जारीकर्ता का नाम	आईएसआईएन	धन जुटाने का तरीका (पब्लिक इश्यू/प्राइवेट प्लेसमेंट)	उपकरण का प्रकार*	धन जुटाने की तिथि	जुटाई गई रकम (करोड़ रुपये में)	इस्तेमाल किए गए फंड (करोड़ रुपये में)	कोई विचलन (हाँ/नहीं)	अगर 8 हों हैं, तो निर्दिष्ट करें के उद्देश्य जिसमें धन का उपयोग किया गया	यदि कोई टिप्पणी हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड		प्राइवेट प्लेसमेंट							
	INE134E08NV5		एनसीडी	21-जुलाई-2025	475.0	475.0	नहीं	लागू नहीं	-
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड		प्राइवेट प्लेसमेंट							
	INE134E08NW3		एनसीडी	25-सितंबर-2025	3,450.0	3,450.0	नहीं	लागू नहीं	-
				कुल	3,925.00	3,925.00			

* एनसीडी - गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर

A. इश्यू प्रोसीड के इस्तेमाल में डेविएशन/वेरिएशन का स्टेटमेंट:

विवरण

सूचीबद्ध इकाई का नाम
 धन जुटाने का तरीका
 उपकरण का प्रकार
 धन जुटाने की तिथि
 जुटाई गई राशि
 तिमाही खत्म होने पर रिपोर्ट फाइल की गई
 क्या जमा किए गए फंड के इस्तेमाल में कोई बदलाव/भिन्नता है?
 क्या प्रॉस्पेक्टस/ऑफर डॉक्यूमेंट में बताए गए इश्यू के मकसद को बदलने के लिए किसी अप्रवृत्त की ज़रूरत है?
 अगर हाँ, तो ज़रूरी मंजूरी की जानकारी
 अनुमोदन का दिनांक
 डेविएशन / वेरिएशन के लिए स्पष्टीकरण
 रिज्यू के बाद ऑडिट कमिटी की टिप्पणियाँ
 ऑडिटर्स की टिप्पणियाँ, अगर कोई हों
 जिन उद्देश्यों के लिए धन जुटाया गया है और जिनमें कोई विचलन/भिन्नता रही है,
 निम्नलिखित तालिका:

मूल वस्तु	संशोधित वस्तु, यदि कोई हो	मूल आवंटन	संशोधित आवंटन, यदि कोई हो	उपयोग किए गए धन	लागू नहीं

डेविएशन का मतलब हो सकता है:

क. जिन उद्देश्यों या मकसदों के लिए फंड इकट्ठा किया गया है, उनमें बदलाव।

टिप्पणियाँ

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 प्राइवेट प्लेसमेंट
 गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ
 21-जुलाई-25 (सिंगल ऑप्शन), 25-सितंबर-25 (सिंगल ऑप्शन)
 रु. 3,925 करोड़
 30-सितंबर-2025
 No

लागू नहीं

टिप्पणी, यदि कोई हो

ख. असल में इस्तेमाल हुए फंड की रकम और शुरू में बताई गई रकम में अंतर।

- 3 30.09.2025 को समाप्त तिमाही और छमाही वर्ष के लिए कंपनी के इन अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा और सिफारिश की गई है और बाद में कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) द्वारा 07.11.2025 को आयोजित अपनी-अपनी बैठकों में अनुमोदित और रिकॉर्ड पर लिया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के संयुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों, ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और मेहरा गोयल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने संशोधित सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 और 52 के संदर्भ में इन वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है।
- 4 ये अलेखापरीक्षित स्वतंत्र वित्तीय परिणाम भारतीय लेखा मानक ("भारतीय लेखा मानक") - 34 'अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग' में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित किया गया है, जिसे समय-समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ा जाता है, और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।
- 5 (क) बोर्ड ने 07.11.2025 को आयोजित अपनी बैठक में चुकता इकिटी शेयर पूंजी पर 36.5% पर दूसरा अंतरिम लाभांश घोषित किया अर्थात्। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹ 3.65/- प्रति इकिटी शेयर ₹ 10/- प्रत्येक। कंपनी ने इससे पहले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहले अंतरिम लाभांश के रूप में ₹ 3.70/- का भुगतान किया था।
- (ख) इसके अलावा, कंपनी के शेयरधारकों ने चुकता इकिटी शेयर पूंजी पर 20.50% की दर से अंतिम लाभांश को मंजूरी दी थी। 28.08.2025 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 10/- प्रत्येक के प्रति इकिटी शेयर ₹ 2.05/-, जिसका भुगतान बाद में सितंबर 2025 में किया गया।
- 6 कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) नीति और इंड एस 109 'वित्तीय उपकरण' के अनुसार ईसीएल के मूल्यांकन के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र एजेंसी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ऋण परिसंपत्तियों पर हानि हानि भत्ते को मान्यता देती है। इस संबंध में विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	30.09.2025 तक			31.03.2025 तक		
		चरण 1 एवं 2	चरण 3**	कुल	चरण 1 एवं 2	चरण 3	कुल
क)	बकाया ऋण (मूलधन)	5,50,721.70	10,487.01	5,61,208.71	5,32,603.56	10,516.85	5,43,120.41
ख)	बकाया ऋण (मूल हानि भत्ता *)	5,560.71	8,411.16	13,971.87	5,992.51	8,424.25	14,416.76
ग)	क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (बी/ए)	1.01%	80.21%	2.49%	1.13%	80.10%	2.65%

* लेंटर ऑफ कम्पर्ट और लेंटर ऑफ अंडरटेकिंग पर हानि हानि भत्ता सहित ₹ 17.03 करोड़ (31.03.2025 तक ₹ 50.71 करोड़)।

** इसमें उधारकर्ता में से एक का ₹ 262.90 Cr का बकाया ऋण शामिल है, जिसे कंपनी द्वारा धोखाधड़ी खाते के रूप में 13.10.2025 को आरबीआई को सूचित किया गया है। विवेक के आधार पर ऐसे ऋण खाते पर 100% हानि भत्ता प्रदान किया गया है।

- 7 विवेक के आधार पर, ऋण क्षतिग्रस्त ऋणों पर आय को तब मान्यता दी जाती है जब वह प्राप्त हो जाती है, या उपार्जन के आधार पर, जब अपेक्षित प्राप्ति बकाया ऋण राशि से अधिक होती है।
- 8 सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 52 (4) के अनुसार प्रकटीकरण, संशोधित रूप में, अनुलग्नक ए में संलग्न है।
- 9 कंपनी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/सरकारी एजेंसियों से प्राप्त सावधि ऋणों और विभिन्न अवधियों की गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के मिश्रण के माध्यम से विभिन्न मुद्राओं में धन जुटाती है। 30.09.2025 को समाप्त छमाही के दौरान, कंपनी ने अपने उधारों की सेवा में चूक नहीं की है।
- 10 30.09.2025 को समाप्त तिमाही के दौरान, गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के मुद्दे से कंपनी द्वारा जुटाई गई राशि का पूरी तरह से उपयोग किया गया है और प्रस्ताव दस्तावेज़/सूचना ज्ञापन में बताए गए उद्देश्यों से कोई भी भौतिक विचलन (ऑ) नहीं हैं। संशोधित रूप में सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 52 (7) और 52 (7ए) के अनुसार प्रकटीकरण अनुलग्नक बी में संलग्न है।
- 11 संशोधित सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 54 के अनुपालन में, कंपनी की सभी सुरक्षित सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां निर्दिष्ट अचल संपत्तियों पर बंधक और/या कंपनी की प्राप्तियों पर प्रभार के माध्यम से पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कंपनी ने प्रस्ताव दस्तावेज़ / सूचना ज्ञापन की शर्तों के अनुसार 1.03 गुना सुरक्षा कवर बनाए रखा है, जो जारी किए गए सुरक्षित सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए हर समय मूलधन और उस पर ब्याज का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त है। निर्धारित प्रारूप में सुरक्षा कवर प्रकटीकरण अनुलग्नक सी में संलग्न है।
- इसके अलावा, सभी सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए कंपनी द्वारा बनाए रखा गया सुरक्षा कवर 1.02 गुना है।
- 12 कंपनी के परिचालन में केवल एक ही व्यवसाय खंड शामिल है - बिजली, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को ऋण देना। इसलिए, इंड एस 108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट" के अनुसार कोई अन्य रिपोर्ट करने योग्य व्यवसाय / भौगोलिक खंड नहीं है।
- 13 जहां भी आवश्यक हुआ, पिछली अवधियों के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत / पुनर्वर्गीकृत किया गया है, ताकि उन्हें वर्तमान अवधि के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 07.11.2025

परमिंदर चोपड़ा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08530587

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 52 (4) के अनुसार, संशोधित रूप में, 30.09.2025 को समाप्त तिमाही और छमाही वर्ष के लिए स्टैंडअलोन आधार पर प्रकटीकरण:

क्र.सं.	विवरण	30.09.2025 को समाप्त तिमाही तक/के लिए	30.09.2025 को समाप्त छमाही तक/के लिए
(i)	ऋण - इक्विटी अनुपात (समय)		4.86
(ii)	बकाया प्रतिदेय वरीयता शेयर		-
(iii)	पूंजी शोधन आरक्षित / ऋणपत्र शोधन आरक्षित		-
(iv)	नेट वर्ध (₹ करोड़ में)		97,524.92
(v)	कर पश्चात निवल लाभ (₹ करोड़ में)	4,461.94	8,963.44
(vi)	प्रति शेयर आय (वार्षिकीकृत नहीं) (₹ में)		
	बेसिक	13.52	27.16
	तनुकृत	13.52	27.16
(vii)	कुल ऋण से कुल संपत्ति (गुना)		0.80
(viii)	परिचालन मार्जिन (%)	37.54	38.73
(ix)	निवल लाभ मार्जिन (%)	30.24	31.41
(x)	अन्य क्षेत्र-विशिष्ट अनुपात (%)		
			1.87
	(क) सकल क्रेडिट हानि ग्रस्त परिसंपत्ति अनुपात		0.37
	(ख) निवल क्रेडिट हानि ग्रस्त परिसंपत्ति अनुपात		21.62
	(ग) सीआरएआर		

नोट:

- 1) ऋण - इक्विटी अनुपात = निवल ऋण / (इक्विटी शेयर पूंजी + अन्य इक्विटी)। निवल ऋण = (ऋण प्रतिभूतियां + उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) + अधीनस्थ देयताएं) का मूल बकाया, जिसमें से नकदी और नकदी समतुल्य घटाए गए हैं।
- 2) निवल संपत्ति = इक्विटी शेयर पूंजी + अन्य इक्विटी।
- 3) कुल परिसंपत्तियों के लिए कुल ऋण = (ऋण प्रतिभूतियां + उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) + अधीनस्थ देयताएं) का मूल बकाया / कुल परिसंपत्तियां।
- 4) परिचालन मार्जिन = (कर पूर्व लाभ - अन्य आय) / परिचालन से कुल राजस्व।
- 5) निवल लाभ मार्जिन = कर के बाद निवल लाभ/कुल आय।
- 6) सकल ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति अनुपात = सकल ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियाँ / सकल ऋण परिसंपत्तियाँ।
- 7) निवल ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति अनुपात = निवल ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियाँ / सकल ऋण परिसंपत्तियाँ।
- 8) सीआरएआर = कुल पूंजी निधि (टियर 1 पूंजी + टियर 2 पूंजी) / जोखिम भारित परिसंपत्तियां, लागू आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार गणना की जाती हैं।
- 9) ऋण सेवा कवरेज अनुपात, ब्याज सेवा कवरेज अनुपात, चालू अनुपात, कार्यशील पूंजी के लिए दीर्घकालिक ऋण, खाता प्राप्य अनुपात के लिए खराब ऋण, चालू देयता अनुपात, देनदार टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात कंपनी पर लागू नहीं हैं।

- 3 30.09.2025 को समाप्त तिमाही और छमाही वर्ष के लिए समूह के इन अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा और सिफारिश की गई है और बाद में कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) द्वारा 07.11.2025 को आयोजित अपनी-अपनी बैठकों में अनुमोदित और रिपोर्ट पर लिया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के संयुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों, ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और मेहरा गोयल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने संशोधित सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 और 52 के संदर्भ में इन वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है।
- 4 ये अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणाम भारतीय लेखा मानक ('भारतीय लेखा मानक') - 34 'अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित किया गया है, जिसे समय-समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ा जाता है, और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।
- 5 इन अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों में एक सहायक कंपनी के त्रैमासिक सीमित समीक्षा वाले समेकित वित्तीय परिणाम शामिल हैं; प्रबंधन ने एक सहायक कंपनी के समेकित वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी और प्रबंधन ने दो सहायक कंपनियों और ग्यारह सहयोगियों के स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी। इन सहायक कंपनियों और सहयोगियों के वित्तीय परिणामों को इंड एसएस 110 - 'समेकित वित्तीय विवरण' और इंड एसएस 28 - 'सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश' के अनुसार समेकित किया गया है।
- 6 (क) बोर्ड ने 07.11.2025 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 36.5% पर दूसरा अंतरिम लाभांश यानी ₹ 3.65/- प्रति इक्विटी शेयर ₹ 10/- प्रत्येक घोषित किया। कंपनी ने इससे पहले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पहले अंतरिम लाभांश के रूप में ₹ 3.70/- का भुगतान किया था।
(ख) इसके अलावा, कंपनी के शेयरधारकों ने चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 20.50% की दर से अंतिम लाभांश को मंजूरी दी थी अर्थात् 28.08.2025 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 10/- प्रत्येक के प्रति इक्विटी शेयर ₹ 2.05/-, जिसका भुगतान बाद में सितंबर 2025 में किया गया।
- 7 कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के संबंध में, ऋण परिसंपत्तियों पर हानि भत्ता बोर्ड द्वारा अनुमोदित अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) नीति के अनुसार और इंड एसएस 109 'वित्तीय उपकरण' के अनुसार ईसीएल के मूल्यांकन के लिए संबंधित कंपनियों द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र एजेंसी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रदान किया गया है। इस संबंध में विवरण नीचे दिया गया है:
(करोड़ ₹ में)
- | क्र. सं. | विवरण | 30.09.2025 तक | | | 31.03.2025 तक | | |
|----------|---|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| | | चरण 1 एवं 2 | चरण 3** | कुल | चरण 1 एवं 2 | चरण 3 | कुल |
| ए) | बकाया ऋण (मूलधन) | 11,26,735.87 | 16,632.89 | 11,43,368.76 | 10,91,826.39 | 18,169.50 | 11,09,995.89 |
| बी) | क्षतिग्रस्त हानि भत्ता * | 10,757.02 | 13,147.28 | 23,904.30 | 11,317.23 | 13,913.74 | 25,230.97 |
| सी) | क्षतिग्रस्त हानि भत्ता कवरेज (%) (बी/ए) | 0.95% | 79.04% | 2.09% | 1.04% | 76.58% | 2.27% |
- * लेटर ऑफ़ कम्फर्ट और लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग पर इम्पेयरमेंट लॉस अलाउंस सहित ₹ 68.25 करोड़। (31.03.2025 तक ₹ 69.19 करोड़।)
** इसमें एक उधारकर्ता का ₹ 262.90 करोड़ का बकाया ऋण शामिल है, जिसे कंपनी द्वारा धोखाधड़ी खाते के रूप में 13.10.2025 को आरबीआई को सूचित किया गया है। समझदारी के तौर पर ऐसे ऋण खाते पर 100% हानि हानि भत्ता प्रदान किया गया है।
** इसमें एक उधारकर्ता का ₹ 262.90 करोड़ का बकाया ऋण शामिल है, जिसे कंपनी द्वारा धोखाधड़ी खाते के रूप में 13.10.2025 को आरबीआई को सूचित किया गया है। समझदारी के तौर पर ऐसे ऋण खाते पर 100% हानि हानि भत्ता प्रदान किया गया है।
- 8 समझदारी की बात यह है कि क्रेडिट इम्पेयर्ड लोन पर इनकम तब मानी जाती है जब वह मिलता है या जब उम्मीद के मुताबिक कमाई, बकाया लोन अमाउंट से ज्यादा हो, तो उसे एकल बेसिस पर माना जाता है।
- 9 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 52 (4) के अनुसार प्रकटीकरण, यथासंशोधित, अनुलग्नक ए पर संलग्न है।
- 10 समूह के परिचालन में मुख्य रूप से केवल एक ही व्यवसाय खंड शामिल है - बिजली, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को ऋण देना। इसलिए, इंड एसएस 108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट" के अनुसार कोई अन्य रिपोर्ट करने योग्य व्यवसाय / भौगोलिक खंड नहीं है।
- 11 जहां भी आवश्यक हुआ, पिछली अवधियों के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत / पुनर्वर्गीकृत किया गया है, ताकि उन्हें वर्तमान अवधि के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 07.11.2025

परमिंदर चोपड़ा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08530587

अनुलग्नक-ए

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 52 (4) के अनुसार, संशोधित रूप में, 30.09.2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए समेकित आधार पर प्रकटीकरण:
क्र.सं. विवरण दिनांक 30.09.2025 को समाप्त तिमाही तक/के लिए 30.09.2025 को समाप्त छमाही तक/के लिए

(i)	ऋण - इक्विटी अनुपात (गुणा)		5.85	
(ii)	बकाया प्रतिदेय वरीयता शेयर		-	
(iii)	पूँजी मोचन रिजर्व/डिबेंचर मोचन रिजर्व		-	
(iv)	नेट वर्ध (₹ करोड़ में)		1,26,985.89	
(v)	कर पश्चात निवल लाभ (₹ करोड़ में)	7,834.39		16,815.84
(vi)	प्रति शेयर आय (वार्षिक नहीं) (₹में)		0.80	
	बेसिक	17.40		38.21
	डाइल्यूटेड	17.40		38.21
(vii)	कुल ऋण से कुल संपत्ति (गुणा)			
(viii)	परिचालन मार्जिन (%)	34.77		36.84
(ix)	निवल लाभ मार्जिन (%)	27.11		29.23
(x)	अन्य क्षेत्र विशिष्ट अनुपात (%)			
	(क) सकल ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति अनुपात		1.45	
	(ख) निवल ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति अनुपात		0.30	

नोट:

- 1) ऋण - इक्विटी अनुपात = निवल ऋण / (इक्विटी शेयर पूँजी + अन्य इक्विटी + गैर-नियंत्रित ब्याज)। निवल ऋण = (ऋण प्रतिभूतियाँ + उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) + अधीनस्थ देयताएँ) का मूल बकाया, जिसमें से नकदी और नकदी समतुल्य घटाए गए हों।
- 2) निवल संपत्ति = इक्विटी शेयर पूँजी + अन्य इक्विटी।
- 3) कुल परिसंपत्तियों के लिए कुल ऋण = (ऋण प्रतिभूतियाँ + उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) + अधीनस्थ देयताएँ) का मूल बकाया / कुल परिसंपत्तियाँ।
- 4) परिचालन मार्जिन = (कर पूर्व लाभ - अन्य आय) / परिचालन से कुल राजस्व।
- 5) निवल लाभ मार्जिन = कर के बाद निवल लाभ/कुल आय।
- 6) सकल ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति अनुपात = सकल ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियाँ / सकल ऋण परिसंपत्तियाँ।
- 7) शुद्ध ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति अनुपात = शुद्ध ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियाँ / सकल ऋण परिसंपत्तियाँ।
- 8) ऋण सेवा कवरेज अनुपात, ब्याज सेवा कवरेज अनुपात, चालू अनुपात, कार्यशील पूँजी के लिए दीर्घकालिक ऋण, खाता प्राप्य अनुपात के लिए खराब ऋण, चालू देयता अनुपात, देनदार टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात समूह पर लागू नहीं हैं।